



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग-II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 13, 2011/पौष 23, 1932

No. 52]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 13, 2011/PAUSA 23, 1932

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2011

का.आ. 54(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 917(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2010 और तारीख 22 अप्रैल, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, पंजाब राज्य के फतेहगढ़ साहिब जिले में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र "ट्रिब्यून" में तारीख 26 मई, 2010 और "अजीत" में तारीख 26 मई, 2010 को प्रकाशित किया गया था;

और, तीन आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया और तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनसूची

पंजाब राज्य के जिला फतेहगढ़ साहिब में रेलवे की निर्माणधीन विशिष्ट परियोजना ईस्टर्न फ्रेट कोरिडोर हेतु अधिग्रहीत की जा रही भूमि के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	तहसील	गाँव का नाम	मस्तील नम्बर	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फतेहगढ़ साहिब	खानपुरा	12	13	निजी	कृषि	0.1262	कुंदन सिंह 160/756 हिस्सा, जगतार सिंह - धर्मपाल सिंह बः बः 596/756 हिस्सा, पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह
				26	निजी	कृषि	0.0278	कुंदन सिंह 160/756 हिस्सा, जगतार सिंह - धर्मपाल सिंह बः बः 596/756 हिस्सा, पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह
				12	निजी	कृषि	0.4174	प्रिथीपाल सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह
				19	निजी	कृषि	0.0740	प्रिथीपाल सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह
				11	निजी	कृषि	0.3427	प्रिथीपाल सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह
				20	निजी	कृषि	0.3406	प्रिथीपाल सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह
				21	निजी	कृषि	0.0194	प्रिथीपाल सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह
				9/1	निजी	कृषि	0.0614	जगतार सिंह - धर्मपाल सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह बहिसा बराबर
				9/2	निजी	कृषि	0.0277	जगतार सिंह - धर्मपाल सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह बहिसा बराबर
				10	निजी	कृषि	0.0038	जगतार सिंह - धर्मपाल सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह बहिसा बराबर
			13	15	निजी	कृषि	0.1013	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः
				16	निजी	कृषि	0.4096	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः
				25	निजी	कृषि	0.2709	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः
				17	निजी	कृषि	0.2017	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः
				18	निजी	कृषि	0.0032	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः
				24	निजी	कृषि	0.4047	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः
				23	निजी	कृषि	0.2011	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः
			22	5	निजी	कृषि	0.0036	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः
				4	निजी	कृषि	0.2388	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः
				7	निजी	कृषि	0.0048	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः
				3	निजी	कृषि	0.4120	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः
				2	निजी	कृषि	0.1367	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र गुलिया बः बः

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8	निजी	कृषि	0.2788	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र तुलिया बः बः
				9	निजी	कृषि	0.4137	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र तुलिया बः बः
				10/2	निजी	कृषि	0.1042	गुरदेव सिंह - रणजीत सिंह - तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र तुलिया बः बः
				13	निजी	कृषि	0.0096	हरभजन सिंह - जोगिन्दर सिंह - भूपेन्दर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र हरदित सिंह बः बः
				12	निजी	कृषि	0.3184	हरभजन सिंह - जोगिन्दर सिंह - भूपेन्दर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र हरदित सिंह बः बः
				11	निजी	कृषि	0.3968	जगतार सिंह - धर्म सिंह पुत्र हरदित सिंह 1/3 हिस्सा, श्रीमती दर्शन कौर पत्नी अछर सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1/6 हिस्सा, भूपेन्दर सिंह - हरभजन सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र हरदित सिंह बः बः 1/12 हिस्सा, धर्मपाल सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह 1/6 हिस्सा, परमजीत सिंह पुत्र जगतार सिंह पुत्र हरदित सिंह 1/6 हिस्सा
				19	निजी	कृषि	0.0343	कुंदन सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह नरिंदर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र हरदित सिंह
				20/1	निजी	कृषि	0.2292	हरभजन सिंह - जोगिन्दर सिंह - भूपेन्दर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र हरदित सिंह बः बः
				20/2	निजी	कृषि	0.1279	हरवंस सिंह पुत्र नत्था सिंह पुत्र शिव दयाल
				26	निजी	गैर कृषि	0.0051	कुंदन सिंह 160/756 हिस्सा, जगतार सिंह - धर्मपाल सिंह बः बः 596/756 हिस्सा, पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह दर 1/2 हिस्सा, गुरदेव सिंह रणजीत सिंह तरसेम सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र तुलिया बः बः 1/2 हिस्सा
				21	निजी	कृषि	0.0653	हरभजन सिंह - जोगिन्दर सिंह - भूपेन्दर सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र हरदित सिंह बः बः
			21	27	निजी	गैर कृषि	0.0299	जगतार सिंह - धर्म सिंह पुत्र हरदित सिंह 1/3 हिस्सा, श्रीमती दर्शन कौर पत्नी अछर सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1/6 हिस्सा, भूपेन्दर सिंह - हरभजन सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र हरदित सिंह बः बः 1/12 हिस्सा, धर्मपाल सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह 1/6 हिस्सा, परमजीत सिंह पुत्र जगतार सिंह पुत्र हरदित सिंह 1/6 हिस्सा
				15	निजी	कृषि	0.0231	जगतार सिंह - धर्म सिंह पुत्र हरदित सिंह 1/3 हिस्सा, श्रीमती दर्शन कौर पत्नी अछर सिंह पुत्र निरंजन सिंह 1/6 हिस्सा, भूपेन्दर सिंह - हरभजन सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र हरदित सिंह बः बः 1/12 हिस्सा, धर्मपाल सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र चन्दा सिंह 1/6 हिस्सा, परमजीत सिंह पुत्र जगतार सिंह पुत्र हरदित सिंह 1/6 हिस्सा
				16/2	निजी	कृषि	0.1062	दिवान सिंह पुत्र नत्था सिंह पुत्र शिव दयाल 203/243 हिस्सा, भूपेन्दर सिंह - हरभजन सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र हरदित सिंह बः बः 40/243 हिस्सा, हरवंस सिंह पुत्र नत्था सिंह पुत्र शिव दयाल
				16/1	निजी	कृषि	0.2229	अछर सिंह - संतोख सिंह - जोगिंदर सिंह - नरिंदर सिंह - भूपेन्दर सिंह - वसाखा सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र किशन सिंह बः बः
			21	17/3	निजी	कृषि	0.0248	अछर सिंह - संतोख सिंह - जोगिंदर सिंह - नरिंदर सिंह - भूपेन्दर सिंह - वसाखा सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र किशन सिंह बः बः

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				24	निजी	कृषि	0.2269	अछर सिंह - संतोख सिंह - जोगिंदर सिंह - नरिंदर सिंह - भुपेन्द्र सिंह - वसाखा सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र किशन सिंह वः वः
			25	4	निजी	कृषि	0.0961	अछर सिंह - संतोख सिंह - जोगिंदर सिंह - नरिंदर सिंह - भुपेन्द्र सिंह - वसाखा सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र किशन सिंह वः वः
			21	25	निजी	कृषि	0.3907	दिवान सिंह पुत्र नत्था सिंह पुत्र शिव दयाल 203/243 हिस्सा, भुपेन्द्र सिंह - हरभजन सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र हरदित्त सिंह वः वः 40/243 हिस्सा,
			25	5	निजी	कृषि	0.0995	दिवान सिंह पुत्र नत्था सिंह पुत्र शिव दयाल 203/243 हिस्सा, भुपेन्द्र सिंह - हरभजन सिंह पुत्र कुंदन सिंह पुत्र हरदित्त सिंह वः वः 40/243 हिस्सा,
				44	सरकारी	गैर कृषि	0.0479	ग्राम पंचायत खानपुर
				43	सरकारी	गैर कृषि	0.0033	ग्राम पंचायत खानपुर
			27	19	निजी	कृषि	0.0673	राजवीर सिंह - सुखवीर सिंह - विकरमवीर सिंह पुत्र हरवंस सिंह पुत्र महंगा सिंह वः वः
				22	निजी	कृषि	0.0629	राजवीर सिंह - सुखवीर सिंह - विकरमवीर सिंह पुत्र हरवंस सिंह पुत्र महंगा सिंह वः वः
				21	निजी	कृषि	0.2136	राजवीर सिंह - सुखवीर सिंह - विकरमवीर सिंह पुत्र हरवंस सिंह पुत्र महंगा सिंह वः वः
				20	निजी	कृषि	0.2470	राजवीर सिंह - सुखवीर सिंह - विकरमवीर सिंह पुत्र हरवंस सिंह पुत्र महंगा सिंह वः वः
			28	25	निजी	कृषि	0.0681	सुरिंदर कौर पत्नी गुरदियाल सिंह पुत्र मताव सिंह
				16	निजी	कृषि	0.4042	सुरिंदर कौर पत्नी गुरदियाल सिंह पुत्र मताव सिंह
				15	निजी	कृषि	0.0633	चरन सिंह पुत्र सज्जन सिंह पुत्र जाता सिंह अजीत सिंह - सुखदेव सिंह पुत्र आत्मा सिंह पुत्र जाता सिंह वः वः
				17	निजी	कृषि	0.2342	मनजीत कौर पत्नी धर्मपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह 1/12 हिस्सा, परमवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह 7/60 हिस्सा, रंजना पत्नी राजपाल सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह 500/21611 हिस्सा, राजपाल सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह 500/21611 हिस्सा, रणजीतपाल सिंह पुत्र व जसप्रीत कौर पुत्री धर्मपाल सिंह 1/4 हिस्सा, रामपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह पुत्र गोपाल सिंह 11/120 हिस्सा, श्रीमती जसदीप कौर - मनदीप कौर पुत्री रामपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह वः वः 1/8 हिस्सा, परमवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह 1/12 हिस्सा, राजिन्दर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र खड़क सिंह 396/21611 हिस्सा, हरपाल सिंह - परमजीत सिंह पुत्र राजिन्दर सिंह पुत्र अमर सिंह 1474/21611 हिस्सा, हरविंदर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह पुत्र साहिब सिंह 1/12 हिस्सा, सतविंदर सिंह - परमजीत सिंह पुत्र शीशन सिंह पुत्र धारा सिंह 1520/21611 हिस्सा

107 4711-2

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12	निजी	कृषि	0.0033	मनजीत कौर पत्नी धर्मपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह 1/12 हिस्सा, परमवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह 7/60 हिस्सा, रंजना पत्नी राजपाल सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह 500/21611 हिस्सा, राजपाल सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह 500/21611 हिस्सा, रणजीतपाल सिंह पुत्र व जसप्रीत कौर पुत्री धर्मपाल सिंह 1/4 हिस्सा, रामपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह पुत्र गोपाल सिंह 11/120 हिस्सा, श्रीमती जसदीप कौर - मनदीप कौर पुत्री रामपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह वः वः 1/8 हिस्सा, परमवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह पुत्र साहिब सिंह 1/12 हिस्सा, राजिन्दर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र खडक सिंह 396/21611 हिस्सा, हरपाल सिंह - परमजीत सिंह पुत्र राजिन्दर सिंह पुत्र अमर सिंह 1474/21611 हिस्सा, हरमिंदर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह पुत्र साहिब सिंह 1/12 हिस्सा, सतविंदर सिंह - परमजीत सिंह पुत्र शीशन सिंह पुत्र धारा सिंह 1520/21611 हिस्सा
				8	निजी	कृषि	0.3153	अजीत सिंह - सुखदेव सिंह पुत्र आत्मा सिंह पुत्र जाता सिंह वः वः
				71	निजी	कृषि	0.0538	मुसतरका मालकान हसब रसद रकवा खेवट
			18	22	निजी	कृषि	0.0189	मुसतरका मालकान हसब रसद रकवा खेवट
2	अमलोह	मेरिंदगढ़		177	निजी	गैर कृषि	0.1442	हरिंदर सिंह - चरनपाल सिंह - रविंदरजीत सिंह पुत्र विक्रमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह हर तीन वः वः 3/4 हिस्सा, तेज प्रताप सिंह पुत्र गुरिंदर सिंह पुत्र विक्रमजीत सिंह 1/4 हिस्सा बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह करमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, जगदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, बाकी वदसतूर 1/4 हिस्सा,
				178	निजी	गैर कृषि	0.1595	हरिंदर सिंह - चरनपाल सिंह - रविंदरजीत सिंह पुत्र विक्रमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह हर तीन वः वः 3/4 हिस्सा, तेज प्रताप सिंह पुत्र गुरिंदर सिंह पुत्र विक्रमजीत सिंह 1/4 हिस्सा बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह करमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, जगदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, बाकी वदसतूर 1/4 हिस्सा,
				179	निजी	गैर कृषि	0.0422	हरिंदर सिंह - चरनपाल सिंह - रविंदरजीत सिंह पुत्र विक्रमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह हर तीन वः वः 3/4 हिस्सा, तेज प्रताप सिंह पुत्र गुरिंदर सिंह पुत्र विक्रमजीत सिंह 1/4 हिस्सा बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह करमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, जगदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, बाकी वदसतूर 1/4 हिस्सा,
				176	निजी	गैर कृषि	0.3118	हरिंदर सिंह - चरनपाल सिंह - रविंदरजीत सिंह पुत्र विक्रमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह हर तीन वः वः 3/4 हिस्सा, तेज प्रताप सिंह पुत्र गुरिंदर सिंह पुत्र विक्रमजीत सिंह 1/4 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह जगदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				173	निजी	गैर कृषि	0.5857	हरिंदर सिंह - चरनपाल सिंह - रविंदरजीत सिंह पुत्र विकरमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह हर तीन बः 3/4 हिस्सा, तेज प्रताप सिंह पुत्र गुरिंदर सिंह पुत्र विकरमजीत सिंह 1/4 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह जगदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह
				172	निजी	गैर कृषि	0.6405	हरिंदर सिंह - चरनपाल सिंह - रविंदरजीत सिंह पुत्र विकरमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह हर तीन बः 3/4 हिस्सा, तेज प्रताप सिंह पुत्र गुरिंदर सिंह पुत्र विकरमजीत सिंह 1/4 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह जगदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह
				171	निजी	गैर कृषि	0.6043	हरिंदर सिंह - चरनपाल सिंह - रविंदरजीत सिंह पुत्र विकरमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह हर तीन बः 3/4 हिस्सा, तेज प्रताप सिंह पुत्र गुरिंदर सिंह पुत्र विकरमजीत सिंह 1/4 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह जगदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, करमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, जगदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह 1/4 हिस्सा, वाकी बदसतूर 1/4 हिस्सा,
				169	निजी	कृषि	0.3946	हरिंदर सिंह - चरनपाल सिंह - रविंदरजीत सिंह पुत्र विकरमजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह हर तीन बः 3/4 हिस्सा, तेज प्रताप सिंह पुत्र गुरिंदर सिंह पुत्र विकरमजीत सिंह 1/4 हिस्सा, बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र पाखर सिंह

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/3-ईस्टर्न कॉरीडोर]

जगदीप राय, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2011

S.O. 54(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 917 (E), dated the 20th April, 2010, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 22nd April, 2010 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Fatehgarh Sahib in the State of Punjab;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily newspaper Ajit, dated the 26th May, 2010 and Tribune, dated the 26th May, 2010 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And whereas three numbers of objections were received and the same have been considered and disallowed by the competent authority and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

107 40711-3

SCHEDULE

Brief description of the land acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project, namely Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Fatehgarh Sahib in the State of Punjab.

Sr. No.	Tehsil	Name of Village	Masteel Number	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Area (Hect.)	Name of Land Owner/Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fatehgarh Sahib	Khanpur	12//	13	Private	Agriculture	0.1262	Kundan Singh 160/ 756 part, Jagtar Singh - Dharmpal Singh equal part, 596/756 part, s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh
				26	Private	Agriculture	0.0278	Kundan Singh 160/ 756 part, Jagtar Singh - Dharmpal Singh equal part, 596/756 part, s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh
				12	Private	Agriculture	0.4174	Prithipal Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh
				11	Private	Agriculture	0.3427	Prithipal Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh
				20	Private	Agriculture	0.3406	Prithipal Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh
				21	Private	Agriculture	0.0194	Prithipal Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh
				9/1	Private	Agriculture	0.0614	Jagtar Singh- Dharmpal Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh equal part
				9/2	Private	Agriculture	0.0277	Jagtar Singh- Dharmpal Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh equal part
				19	Private	Agriculture	0.0740	Prithipal Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh
				10	Private	Agriculture	0.0038	Jagtar Singh- Dharmpal Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh equal part
			13//	15	Private	Agriculture	0.1013	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				16	Private	Agriculture	0.4096	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				25	Private	Agriculture	0.2709	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				17	Private	Agriculture	0.2017	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				18	Private	Agriculture	0.0032	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				24	Private	Agriculture	0.4047	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				23	Private	Agriculture	0.2011	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
			22//	5	Private	Agriculture	0.0036	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				4	Private	Agriculture	0.2388	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				7	Private	Agriculture	0.0048	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				3	Private	Agriculture	0.4120	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				2	Private	Agriculture	0.1367	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				8	Private	Agriculture	0.2788	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				9	Private	Agriculture	0.4137	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				10/2	Private	Agriculture	0.1042	Gurdev Singh- Ranjeet Singh- Tarsem Singh s/o Pyara Singh s/o Ruliya equal part
				13	Private	Agriculture	0.0096	Harbhjan Singh -Joginder Singh- Bhupinder Singh s/o Kundan Singh s/o Hardit Singh equal part

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12	Private	Agriculture	0.3184	Harbhjan Singh -Joginder Singh- Bhupinder Singh s/o Kundan Singh s/o Hardit Singh equal part
				20/1	Private	Agriculture	0.2292	Harbhjan Singh -Joginder Singh- Bhupinder Singh s/o Kundan Singh s/o Hardit Singh equal part
				21	Private	Agriculture	0.0653	Harbhjan Singh -Joginder Singh- Bhupinder Singh s/o Kundan Singh s/o Hardit Singh equal part
				11	Private	Agriculture	0.3968	Jagtar Singh- Dharm Singh s/o Hardit Singh 1/3 part, Srimati Darshan Kaur w/o Achar Singh s/o Niranjan Singh 1/6 part, Bhupinder Singh- Harbhjan Singh s/o Kundan Singh s/o Hardit Singh equal part, 1/12 part, Dharpal Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh 1/6 part, Paramjeet Singh s/o Jagtar Singh s/o Hardit Singh 1/6 part
				19	Private	Agriculture	0.0343	Kundan Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh Narinder Singh s/o Kundan Singh s/o Hardit Singh
				20/2	Private	Agriculture	0.1279	Harbhans Singh s/o Natha s/o Shiv Dayal
				26	Private	Non-Agriculture	0.0051	Kundan Singh 160/756 part, Jagtar Singh, Dharpal Singh equal part, 596/756 part, s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh Dar 1/2 part, Gurdev Singh, Ranjit Singh, Tarsem Singh s/o Piara Singh s/o Rulia equal part, Dar 1/2 part
			21//	27	Private	Non-Agriculture	0.0299	Jagtar Singh- Dharm Singh s/o Hardit Singh 1/3 part, Srimati Darshan Kaur w/o Achar Singh s/o Niranjan Singh 1/6 part, Bhupinder Singh- Harbhjan Singh s/o Kundan Singh s/o Hardit Singh equal part, 1/12 part, Dharpal Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh 1/6 part, Paramjeet Singh s/o Jagtar Singh s/o Hardit Singh 1/6 part
				15	Private	Agriculture	0.0231	Jagtar Singh- Dharm Singh s/o Hardit Singh 1/3 part, Srimati Darshan Kaur w/o Achar Singh s/o Niranjan Singh 1/6 part, Bhupinder Singh- Harbhjan Singh s/o Kundan Singh s/o Hardit Singh equal part, 1/12 part, Dharpal Singh s/o Hardit Singh s/o Chanda Singh 1/6 part, Paramjeet Singh s/o Jagtar Singh s/o Hardit Singh 1/6 part
				16/2	Private	Agriculture	0.1062	Diwan Singh s/o Natha Singh s/o Shiv Diyal 203/243 part, Bhupinder Singh -Harbhjan Singh s/o Kundan Singh s/o Hardit Singh equal part, 40/243 part, Harbhans Singh s/o Natha s/o Shiv Diyal
				16/1	Private	Agriculture	0.2229	Achhar Singh- Santokh Singh-Joginder Singh-Narinder Singh - Bhupinder Singh- Vasakha Singh s/o Niranjan Singh s/o Kishan Singh equal part
				17/3	Private	Agriculture	0.0248	Achhar Singh- Santokh Singh-Joginder Singh-Narinder Singh - Bhupinder Singh- Vasakha Singh s/o Niranjan Singh s/o Kishan Singh equal part
				24	Private	Agriculture	0.2269	Achhar Singh- Santokh Singh-Joginder Singh-Narinder Singh - Bhupinder Singh- Vasakha Singh s/o Niranjan Singh s/o Kishan Singh equal part

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25//	4	Private	Agriculture	0.0961	Achhar Singh- Santokh Singh-Joginder Singh-Narinder Singh - Bhupinder Singh- Vasakha Singh s/o Niranjan Singh s/o Kishan Singh equal part
			21//	25	Private	Agriculture	0.3907	Diwan Singh s/o Natha Singh s/o Shiv Dayal 203/243 part, Bhupinder Singh -Harbhjan Singh s/o Kundan Singh s/o Hardit Singh equal part, 40/243 part
			25//	5	Private	Agriculture	0.0995	Diwan Singh s/o Natha Singh s/o Shiv Dayal 203/243 part, Bhupinder Singh -Harbhjan Singh s/o Kundan Singh s/o Hardit Singh equal part, 40/243 part
				44	Government	Non-Agriculture	0.0479	Gram Panchyat Khanpur
				43	Government	Non-Agriculture	0.0033	Gram Panchyat Khanpur
			27//	19	Private	Agriculture	0.0673	Rajveer Singh- Sukhveer Singh- Vikarmveer Singh s/o Harbansh Singh s/o Mehnga Singh equal part,
				22	Private	Agriculture	0.0629	Rajveer Singh- Sukhveer Singh- Vikarmveer Singh s/o Harbansh Singh s/o Mehnga Singh equal part,
				21	Private	Agriculture	0.2136	Rajveer Singh- Sukhveer Singh- Vikarmveer Singh s/o Harbansh Singh s/o Mehnga Singh equal part,
				20	Private	Agriculture	0.2470	Rajveer Singh- Sukhveer Singh- Vikarmveer Singh s/o Harbansh Singh s/o Mehnga Singh equal part,
			28//	25	Private	Agriculture	0.0681	Surinder Kaur w/o Gurdiyal Singh s/o Matab Singh
				16	Private	Agriculture	0.4042	Surinder Kaur w/o Gurdiyal Singh s/o Matab Singh
				15	Private	Agriculture	0.0633	Charan Singh s/o Sajan Singh s/o Jaata Singh Ajit Singh- Sukhdev Singh s/o Aatma Singh s/o Jaata Singh equal part
				17	Private	Agriculture	0.2342	Manjeet Kaur w/o Dharpal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 7/60 part, Ranjna w/o Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Ranjeetpal Singh son and Jaspreet Kaur d/o Dharpal Singh 1/4 part, Rampal Singh s/o Sahib Singh s/o Gopal Singh 11/120 part, Srimati Jasdeep Kaur-Mandeep Kaur d/o Rampal Singh s/o Sahib Singh equal part, 1/8 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Rajinder Singh s/o Amar Singh s/o Khadak Singh 396/21611 part, Harpal Singh- Parmjeet Singh s/o Rajinder Singh s/o Amar Singh 1474/21611 part, Harinder Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Satvinder singh, Parmjeet Singh s/o Shishan Singh s/o Dhara Singh 1520/21611 part

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				14	Private	Agriculture	0.2724	Manjeet Kaur w/o Dhampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 7/60 part, Ranjna w/o Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Ranjeetpal Singh son and Jaspreet Kaur d/o Dhampal Singh 1/4 part, Rampal Singh s/o Sahib Singh s/o Gopal Singh 11/120 part, Srimati Jasdeep Kaur-Mandeep Kaur d/o Rampal Singh s/o Sahib Singh equal part, 1/8 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Rajinder Singh s/o Amar Singh s/o Khadak Singh 396/21611 part, Harpal Singh- Parmjeet Singh s/o Rajinder Singh s/o Amar Singh 1474/21611 part, Harminder Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Satvinder singh, Parmjeet Singh s/o Shishan Singh s/o Dhara Singh 1520/21611 part
				27	Private	Agriculture	0.0278	Manjeet Kaur w/o Dhampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 7/60 part, Ranjna w/o Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Ranjeetpal Singh son and Jaspreet Kaur d/o Dhampal Singh 1/4 part, Rampal Singh s/o Sahib Singh s/o Gopal Singh 11/120 part, Srimati Jasdeep Kaur-Mandeep Kaur d/o Rampal Singh s/o Sahib Singh equal part, 1/8 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Rajinder Singh s/o Amar Singh s/o Khadak Singh 396/21611 part, Harpal Singh- Parmjeet Singh s/o Rajinder Singh s/o Amar Singh 1474/21611 part, Harminder Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Satvinder singh, Parmjeet Singh s/o Shishan Singh s/o Dhara Singh 1520/21611 part
				28	Private	Agriculture	0.0278	Manjeet Kaur w/o Dhampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 7/60 part, Ranjna w/o Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Ranjeetpal Singh son and Jaspreet Kaur d/o Dhampal Singh 1/4 part, Rampal Singh s/o Sahib Singh s/o Gopal Singh 11/120 part, Srimati Jasdeep Kaur-Mandeep Kaur d/o Rampal Singh s/o Sahib Singh equal part, 1/8 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Rajinder Singh s/o Amar Singh s/o Khadak Singh 396/21611 part, Harpal Singh- Parmjeet Singh s/o Rajinder Singh s/o Amar Singh 1474/21611 part, Harminder Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Satvinder singh, Parmjeet Singh s/o Shishan Singh s/o Dhara Singh 1520/21611 part

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				18	Private	Agriculture	0.0038	Manjeet Kaur w/o Dhampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 7/60 part, Ranjna w/o Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Ranjeetpal Singh son and Jaspreet Kaur d/o Dharmal Singh 1/4 part, Rampal Singh s/o Sahib Singh s/o Gopal Singh 11/120 part, Srimati Jasdeep Kaur-Mandeep Kaur d/o Rampal Singh s/o Sahib Singh equal part, 1/8 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Rajinder Singh s/o Amar Singh s/o Khadak Singh 396/21611 part, Harpal Singh- Parmjeet Singh s/o Rajinder Singh s/o Amar Singh 1474/21611 part, Harminder Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Satvinder singh, Parmjeet Singh s/o Shishan Singh s/o Dhara Singh 1520/21611 part
				13	Private	Agriculture	0.2550	Manjeet Kaur w/o Dharmal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 7/60 part, Ranjna w/o Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Ranjeetpal Singh son and Jaspreet Kaur d/o Dharmal Singh 1/4 part, Rampal Singh s/o Sahib Singh s/o Gopal Singh 11/120 part, Srimati Jasdeep Kaur-Mandeep Kaur d/o Rampal Singh s/o Sahib Singh equal part, 1/8 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Rajinder Singh s/o Amar Singh s/o Khadak Singh 396/21611 part, Harpal Singh- Parmjeet Singh s/o Rajinder Singh s/o Amar Singh 1474/21611 part, Harminder Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Satvinder singh, Parmjeet Singh s/o Shishan Singh s/o Dhara Singh 1520/21611 part
				7	Private	Agriculture	0.0109	Manjeet Kaur w/o Dharmal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 7/60 part, Ranjna w/o Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Ranjeetpal Singh son and Jaspreet Kaur d/o Dharmal Singh 1/4 part, Rampal Singh s/o Sahib Singh s/o Gopal Singh 11/120 part, Srimati Jasdeep Kaur-Mandeep Kaur d/o Rampal Singh s/o Sahib Singh equal part, 1/8 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Rajinder Singh s/o Amar Singh s/o Khadak Singh 396/21611 part, Harpal Singh- Parmjeet Singh s/o Rajinder Singh s/o Amar Singh 1474/21611 part, Harminder Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Satvinder singh, Parmjeet Singh s/o Shishan Singh s/o Dhara Singh 1520/21611 part

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3	Private	Agriculture	0.0157	Manjeet Kaur w/o Dharmpal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 7/60 part, Ranjna w/o Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Ranjeetpal Singh son and Jaspreet Kaur d/o Dharmpal Singh 1/4 part, Rampal Singh s/o Sahib Singh s/o Gopal Singh 11/120 part, Srimati Jasdeep Kaur-Mandeep Kaur d/o Rampal Singh s/o Sahib Singh equal part, 1/8 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Rajinder Singh s/o Amar Singh s/o Khadak Singh 396/21611 part, Harpal Singh- Parmjeet Singh s/o Rajinder Singh s/o Amar Singh 1474/21611 part, Harminder Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Satvinder singh, Parmjeet Singh s/o Shishan Singh s/o Dhara Singh 1520/21611 part
				2	Private	Agriculture	0.2319	Manjeet Kaur w/o Dharmpal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 7/60 part, Ranjna w/o Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Ranjeetpal Singh son and Jaspreet Kaur d/o Dharmpal Singh 1/4 part, Rampal Singh s/o Sahib Singh s/o Gopal Singh 11/120 part, Srimati Jasdeep Kaur-Mandeep Kaur d/o Rampal Singh s/o Sahib Singh equal part, 1/8 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Rajinder Singh s/o Amar Singh s/o Khadak Singh 396/21611 part, Harpal Singh- Parmjeet Singh s/o Rajinder Singh s/o Amar Singh 1474/21611 part, Harminder Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Satvinder singh, Parmjeet Singh s/o Shishan Singh s/o Dhara Singh 1520/21611 part
				9	Private	Agriculture	0.2514	Manjeet Kaur w/o Dharmpal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 7/60 part, Ranjna w/o Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Ranjeetpal Singh son and Jaspreet Kaur d/o Dharmpal Singh 1/4 part, Rampal Singh s/o Sahib Singh s/o Gopal Singh 11/120 part, Srimati Jasdeep Kaur-Mandeep Kaur d/o Rampal Singh s/o Sahib Singh equal part, 1/8 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Rajinder Singh s/o Amar Singh s/o Khadak Singh 396/21611 part, Harpal Singh- Parmjeet Singh s/o Rajinder Singh s/o Amar Singh 1474/21611 part, Harminder Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Satvinder singh, Parmjeet Singh s/o Shishan Singh s/o Dhara Singh 1520/21611 part

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12	Private	Agriculture	0.0033	Manjeet Kaur w/o Dharmpal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 7/60 part, Ranjna w/o Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Rajpal Singh s/o Gurdiyal Singh 500/21611 part, Ranjeetpal Singh son and Jaspreet Kaur d/o Dharmpal Singh 1/4 part, Rampal Singh s/o Sahib Singh s/o Gopal Singh 11/120 part, Srimati Jasdeep Kaur-Mandeep Kaur d/o Rampal Singh s/o Sahib Singh equal part, 1/8 part, Parmveer Singh s/o Rampal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Rajinder Singh s/o Amar Singh s/o Khadak Singh 396/21611 part, Harpal Singh- Parmjeet Singh s/o Rajinder Singh s/o Amar Singh 1474/21611 part, Harminder Singh s/o Gurdiyal Singh s/o Sahib Singh 1/12 part, Satvinder Singh, Parmjeet Singh s/o Shishan Singh s/o Dhara Singh 1520/21611 part
				8	Private	Agriculture	0.3153	Ajit Singh- Sukhdev Singh s/o Aatma Singh s/o Jaata Singh equal part,
				71	Private	Agriculture	0.0538	Common Owners area Khewat
			18	22	Private	Agriculture	0.0189	Common Owners area Khewat
2	Amlah	Govindgarh		177	Private	Non-Agriculture	0.1442	Harinder Singh -Charanpal Singh - Rabinderjeet Singh s/o Vikramjeet Singh s/o Mehar Singh every three equal part, 3/4 part, Tej Pratap Singh s/o Gurinder Singh s/o Vikramjeet Singh 1/4 part, Baldev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh. Karamjeet Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, Baldev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, Jagdev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, balance as it is 1/4 part, .
				178	Private	Non-Agriculture	0.1595	Harinder Singh -Charanpal Singh - Rabinderjeet Singh s/o Vikramjeet Singh s/o Mehar Singh every three equal part, 3/4 part, Tej Pratap Singh s/o Gurinder Singh s/o Vikramjeet Singh 1/4 part, Baldev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh. Karamjeet Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, Baldev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, Jagdev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, balance as it is 1/4 part, .
				179	Private	Non-Agriculture	0.0422	Harinder Singh -Charanpal Singh - Rabinderjeet Singh s/o Vikramjeet Singh s/o Mehar Singh every three equal part, 3/4 part, Tej Pratap Singh s/o Gurinder Singh s/o Vikramjeet Singh 1/4 part, Baldev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh. Karamjeet Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, Baldev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, Jagdev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, balance as it is 1/4 part, .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				176	Private	Non-Agriculture	0.3118	Harinder Singh -Charanpal Singh - Rabinderjeet Singh s/o Vikramjeet Singh s/o Mehar Singh every three equal part, 3/4 part, Tej Pratap Singh s/o Gurinder Singh s/o Vikramjeet Singh 1/4 part, Karmjeet Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh. Jagdev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh
				173	Private	Non-Agriculture	0.5857	Harinder Singh -Charanpal Singh - Rabinderjeet Singh s/o Vikramjeet Singh s/o Mehar Singh every three equal part, 3/4 part, Tej Pratap Singh s/o Gurinder Singh s/o Vikramjeet Singh 1/4 part, Karmjeet Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh. Jagdev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh
				172	Private	Non-Agriculture	0.6405	Harinder Singh -Charanpal Singh - Rabinderjeet Singh s/o Vikramjeet Singh s/o Mehar Singh every three equal part, 3/4 part, Tej Pratap Singh s/o Gurinder Singh s/o Vikramjeet Singh 1/4 part, Karmjeet Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh. Jagdev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh
				171	Private	Non-Agriculture and Agriculture	0.6043	Harinder Singh -Charanpal Singh - Rabinderjeet Singh s/o Vikramjeet Singh s/o Mehar Singh every three equal part, 3/4 part, Tej Pratap Singh s/o Gurinder Singh s/o Vikramjeet Singh 1/4 part, Karamjeet Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh. Jagdev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh. Karamjeet Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, Baldev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, Jagdev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh 1/4 part, balance as it is 1/4 part, .
				169	Private	Agriculture	0.3946	Harinder Singh -Charanpal Singh - Rabinderjeet Singh s/o Vikramjeet Singh s/o Mehar Singh every three equal part, 3/4 part, Tej Pratap Singh s/o Gurinder Singh s/o Vikramjeet Singh 1/4 part, Baldev Singh s/o Mehar Singh s/o Pakhar Singh.

[F. No. 2010/LML/12/3-Eastern Corridor]

JAGDIP RAI, Executive Director (Land and Amenities-1)